



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012025-259979
CG-DL-E-06012025-259979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2025/पौष 16, 1946

No. 12]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2025/PAUSHA 16, 1946

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 12(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, (योद्धक आशुलिपिक काडर), समूह 'क' और समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, (योद्धक आशुलिपिक काडर), समूह 'क' तथा समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम-2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल (योद्धक आशुलिपिक काडर), समूह 'क' तथा समूह 'ख' पद भर्ती नियम-2019 में:-

(क) नियम-5 में, “सत्तावन वर्ष”, शब्द जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर “साठ वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) अनुसूची में :-

(i) सहायक कमांडेंट (निजी सचिव) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (11) में,

(क) शीर्षक "प्रोन्नति द्वारा" के अधीन "तीन वर्षों" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्षों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) शीर्षक "प्रोन्नति द्वारा" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"टिप्पण-1: गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, (योद्धक आशुलिपिक काडर), समूह 'क' तथा समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम-2025 के प्रारंभ होने की तारीख को नियमित आधार पर निरीक्षक (निजी सहायक) का पद धारण करने वाले पदधारियों के लिए पात्रता सेवा, ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा होगी;

(ग) टिप्पण को "टिप्पण-2" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा;

(ii) निरीक्षक (निजी सहायक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ (11) में, टिप्पण-3 में, "52 वर्ष" अंकों और शब्दों के स्थान पर "छप्पन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उपनिरीक्षक (आशुलिपिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या-4 के सामने, स्तंभ (11) में टिप्पण-3 में, "52 वर्ष" अंको और शब्दों के स्थान पर, "छप्पन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. सी-17/02/2024/कार्मिक-गोपनीय/ सी सु बल]

कमलेश रविदास, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 118, तारीख 16 मई, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2025

G.S.R. 12(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Border Security Force, (Combatised Stenographers Cadre), Group 'A' and Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2019, namely: -

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Border Security Force, (Combatised Stenographers Cadre), Group 'A' and Group 'B' Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Border Security Force, (Combatised Stenographers Cadre), Group 'A' and Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2019, -

(a) in rule 5, for the words "fifty-seven years" wherever they occur, the words "sixty years" shall be substituted ;

- (b) in the Schedule, -
- (i) against serial number 2 relating to the post of Assistant Commandant (Personal Secretary), in column (11),-
- (A) under the heading “By Promotion”, for the words “three years”, the words “five years” shall be substituted;
- (B) after the heading “By Promotion” and the entries relating thereto, the following note shall be inserted, namely: -
- “**Note1:** The eligibility service for the incumbents holding the post of Inspector (Personal Assistant) on regular basis on the date of commencement of the Ministry of Home Affairs, Border Security Force, (Combatised Stenographers Cadre), Group ‘A’ and Group ‘B’ Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2025 shall be three years of regular service in the grade”;
- (C) the Note shall be numbered as “Note 2” thereof;
- (ii) against serial number 3 relating to the post of Inspector (Personal Assistant), in column (11), in Note 3, for the figures and word “52 years”, the words “fifty-six years” shall be substituted;
- (iii) against serial number 4 relating to the post of Sub-Inspector(Steno), in column (11) in Note 3, for the figures and word “52 years”, the words “fifty-six years” shall be substituted.

[F. No. C-17/02/2024/Pers-Conf/BSF]

KAMLESH RABIDAS, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 118, dated the 16th May, 2019.